



**AARTI
INDUSTRIES**

स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण नीति

हम आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एआइएल) में सभी व्यावसायिक कार्यों, सेवाओं और विस्तार गविविधियों का संचालन करते हुए स्वास्थ्य, सुरक्षा, संरक्षा, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण, उत्पाद की गुणवत्ता और प्रक्रियाओं के विश्वस्तर के मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, हम निम्नलिखित मापदण्डों को सुनिश्चित करते हैं :

- स्वास्थ्य, सुरक्षा, संरक्षा, पर्यावरण, गुणवत्ता, और मानव संसाधन पहलुओं के संबंध में सभी लागू वैधानिक, नियामक और अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन करना;
- संबंधित इंटरस्टेड पार्टियों के साथ प्रभावी संचार, भागीदारी और परामर्श के माध्यम से एचएसएसई संस्कृति को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य, सुरक्षा, संरक्षा, पर्यावरण, और गुणवत्ता कार्यक्रमों को लागू करना;
- संबंधित इंटरस्टेड पार्टियों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करते हुए हमारे उत्पादों के डिजाइन, विकास, विनिर्माण, हैंडलिंग, भंडारण और वितरण चरण के दौरान स्वास्थ्य, सुरक्षा, संरक्षा, पर्यावरण से संबंधित जोखिमों को कम करना;
- व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए एचएसई और सस्टेनेबिलिटी को मुख्य मापदण्ड के रूप में सुनिश्चित करना;
- किसी भी दुर्घटना या क्षति के प्रति शून्य सहिष्णुता की मानसिकता का पालन करना एवं कार्य स्थल को चोट मुक्त बनाना;
- कंपनी के व्यावसायिक कार्यों से जुड़े सभी कर्मियों, ग्राहकों और समुदायों को संभावित एचएसई खतरों से दूर करना और उनके प्रभाव को कम करना;
- कंपनी में एचएसएसई प्रदर्शन में निरंतर सुधार के लिए डिजिटल उपकरणों, आधुनिक तरीकों जैसे की समय-समय पर सुरक्षा और संयंत्र की स्थिति की समीक्षा, गुणवत्ता का आश्वासन, घटना और जोखिमों का मूल्यांकन एवं प्रबंधन करना;
- पर्यावरण की सुरक्षा और वैल्यू चैन में पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कार्यस्थल और आस-पास के क्षेत्रों में प्रदूषण की रोकथाम, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, स्रोत पर व्यावसायिक कचरे का नियंत्रण, नैसर्गिक संसाधनों का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करना;
- परिसर में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों, ठेकेदारों, उप-ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों, आगंतुकों, अन्य एजेंसियों के लिए एचएसई, सस्टेनेबिलिटी और रिस्पॉसिबल केयर मैनेजमेंट सिस्टम की जिम्मेदारियों का निर्धारण करना एवं उसके पालन के लिए पर्याप्त प्रक्रियाओं तथा नियंत्रण को सुनिश्चित करना;
- शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से संबंधित इंटरस्टेड पार्टियों में एचएसई और सस्टेनेबिलिटी की जागरूकता पैदा करना;
- कर्मचारियों, ग्राहकों, समुदाय, व्यापारिक सहयोगियों और इंटरस्टेड पार्टियों के लिए एचएसई नीति और सस्टेनेबिलिटी के प्रदर्शन को संप्रेषित करना;
- उत्पाद और प्रक्रियाओं के जीवन चक्र में एचएसई, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों में निरंतर सुधार के लिए आवश्यक पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन प्रदान करना;
- अपने सभी संबंधित हितधारकों के बीच एचएसई जागरूकता और योग्यता बढ़ाने के उद्देश्य हेतु लगातार सीखते रहना |

हस्ताक्षर

राजेंद्र वी गोगरी
चेयरमैन और प्रबंध निदेशक
आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड

Revision: AIL/MFG/POL/01/07/00
Issue No 07, Revision No 00
Issue Date: November 2020